

St. Aloysius College (Autonomous) Jabalpur
B COM II YEAR
Subject- Tax Procedure & Practice
Paper- II – Advance Study of Goods and Services Tax
Question Bank

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) - निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए- Choose the correct option -

1. REVIEW OF PROVISIONS OF GST

1. माल एवं सेवाकर है

- (a) वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर
- (b) सेवाओं की पूर्ति पर लगने वाला कर
- (c) **वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर कर**
- (d) वस्तुओं के उत्पादन पर

Goods and Services Tax is tax on

- (a) Sales of goods
- (b) Supply of services
- (C) **Supply of goods and services**
- (d) Production of goods

2. कर जीएसटी लगाया जाता है

- (a) भारत सरकार द्वारा (b) राज्य सरकार द्वारा (c) **दोनों सरकारों द्वारा** (d) स्थानीय निकाय
- GST is imposed by –
- (a) Government of India (b) State Government (c) **Both Governments** (d) Local body

3. जीएसटी पद्धति में कर लगता है

- (a) एक बिन्दु (b) **बहु बिन्दु** (c) प्रथम बिन्दु (d) अंतिम बिन्दु
- Tax imposed in GST system
- (a) Single point (b) **Multiple point** (c) First point (d) Last point

4. जीएसटी चुकाने के लिए उत्तरदायी है

- (a) उद्योगपति (b) व्यापार स्वामी (c) पंजीकृत पूर्तिकर्ता (d) पंजीकृत पूर्तिकर्ता
- Liabile for GST payment
- (a) Industrialist (b) Business owner (c) Registered supplier (d) Unregistered supplier

5. जीएसटी कर है

- (a) प्रत्यक्ष कर (b) **अप्रत्यक्ष कर** (c) उत्पादन कर (d) मूल्यानुसार कर
- GST is (a) Direct Tax (b) **Indirect Tax** (c) Production Tax (d) Advalorem Tax

6. जीएसटी लागू है

- (a) **सम्पूर्ण भारत में** (b) जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर (c) संघ शासित क्षेत्रों में (d) सम्पूर्ण विश्व में
- GST is applicable in

(a) **Whole India** (b) Except Jammu & Kashmir (c) Union territories (d) Whole world

7. जीएसटी है

(a) केन्द्रीय कर (b) **संघीय कर** (c) प्रांतीय कर (d) स्थानीय कर

GST is a- (a) Central Tax (b) **Federal Tax** (c) State Tax (d) Local Tax

8. पूर्ति में शामिल है

(a) माल की पूर्ति (b) सेवा की पूर्ति (c) **माल और सेवा दोनों की पूर्ति** (d) उपर्युक्त सभी

Supply includes

(a) Supply of goods (b) Supply of services (c) **Supply of goods and services both** (d) All of above

9. पूर्ति के क्षेत्र में शामिल है:

(a) प्रतिफल के बदले माल की पूर्ति (b) प्रतिफल के बदले सेवाओं की पूर्ति (c) माल एवं सेवाओं का आयात (d) **उपर्युक्त सभी**

Following are included in scope of supply –

(a) Supply goods for consideration (b) Supply of services for consideration (c) Import of goods and services (d) **All of above.**

10. संयुक्त पूर्ति की दशा में कर लगता है

(a) **मुख्य पूर्ति की दर से** (b) सहायक पूर्ति की दर से (c) अलग-अलग दर से (d) उच्चतम दर से

Tax rate applicable in case of composite supply –

(a) **Rate applicable for principal supply** (b) Rate applicable for ancillary supply (c) Different rates (d) Highest rate

11. मिश्रित पूर्ति की दशा में कर दर लागू होती है:

(a) अलग-अलग दर (b) उच्च दर (c) मुख्य दर (d) निम्न दर

Tax rate applicable in case of mixed supply (a) Different rate (b) Higher rate (c) Principal rate (d) Lower rate

12. जीएसटी में कर आरोपण एवं संग्रहण की धारा है-

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) सभी

Section applicable under GST for levy and collection of tax –

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) All of above

13. रिवर्स चार्ज में कर दायित्व होता है

(a) पूर्तिकर्ता पर (b) **प्राप्तिकर्ता पर** (c) अनरजिस्टर्ड व्यक्ति पर (d) उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति पर

Tax liability in case of Reverse charge arise on-

(a) Supplier (b) **Recipient** (c) Unregistered dealer (d) Any of above

14. पूर्तिकर्ता की दशा में जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है, यदि कुल वार्षिक आवर्त -

(a) 2 लाख रु. से अधिक हो (b) 5 लाख रु. से अधिक हो (c) 10 लाख रु. से अधिक हो (d) **40 लाख रु. से अधिक हो**

Registration compulsory under GST in case of a supplier if annual Aggregate Turnover is more than - (a) 72 Lakh (b) 5 Lakh (c) 10 Lakh (d) **40 Lakh**

15. व्यवसायी अंतर्राज्यीय पूर्ति करता है तो पंजीयन कराने के लिए टर्नओवर सीमा है-

(a) 5 लाख रु. (b) 10 लाख रु. (c) 20 लाख रु. (d) **कोई सीमा नहीं**

If businessman supplies to other state threshold limit for registration is –

(a) 5 Lakh (b) ₹ 10 Lakh (c) ₹ 20 Lakh (d) **No limit**

16. विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए पंजीयन कराने की टर्नओवर सीमा है

(a) 5 लाख रु. (b) 10 लाख रु. (c) 15 लाख रु. (d) **20 लाख रु.**

Threshold limit for registration in case of special category states –

(a) 5 Lakh (b) 10 Lakh (c) ₹ 15 Lakh (d) **₹ 20 Lakh**

17. कम्पोजिशन का विकल्प वह पूर्तिकर्ता अपना सकता है, जिसकी

(a) **कुल वार्षिक पूर्ति राशि 1.5 करोड़ रु, तक हो** (b) करयोग्य पूर्ति 1.5 करोड़ रु. तक हो

(c) करमुक्त माल की पूर्ति 5 करोड़ रु. तक हो (d) पूर्ति की कोई सीमा नहीं

Option of composition may be opt by the supplier whose

(a) **Annual total turnover is not exceeding 1.5 Crore** (b) Taxable supply is up to 1.5 crore

(c) Supply of Tax free goods up to 5 crore (d) No threshold limit

18. कम्पोजिशन की दशा में कर की दर लागू होती है-

(a) **1%** (b) 2% (c) सामान्य दर (d) अधिकतम दर

In case of composition applicable rate is-

(a) **1%** (b) 2% (c) Normal rate (d) Maximum rate

19. आगत कर छूट प्राप्त होती है-

(a) प्रत्येक क्रेता

व्यापारी को (b) **पंजीकृत व्यक्ति को** (c) पंजीकृत विक्रेता व्यापारी को (d) केवल उत्पादक को
Inputs Tax rebate is available to.

(a) Every purchaser dealer (b) **Registered person** (c) Registered selling dealer (d) Only Manufacturer

20. आगत कर छूट प्राप्त करने की शर्त है-

(a) **माल पंजीकृत व्यक्ति से खरीदा हो** (b) माल उत्पादक से क्रय किया हो (c) माल किसान से खरीदा हो (d) माल आयात किया गया हो।

Condition for Input Tax rebate

(a) Goods purchased from Registered person (b) Goods purchased from manufacturer (c) Goods purchased from farmer (d) Goods imported

21. कम्पोजिशन की दशा में आगत कर क्रेडिट-

(a) प्राप्त होती है (b) नहीं प्राप्त होती है (c) आंशिक रूप से प्राप्त होती है (d) केवल पूर्तिकर्ता को प्राप्त होती है।

Input Tax credit is in case of composition

(a) Available (b) **Not available** (c) Partial available (d) Available only to supplier

22. आगत कर क्रेडिट प्राप्त होती है-

(a) शुद्ध बिक्री में से (b) करयोग्य पूर्ति में से (c) **देय जीएसटी में से** (d) स्टॉक में से

Input Tax credit is deduction against

a) Net Sales (b) Taxable supply (c) **GST payable** (d) Stock

23.. जीएसटी के तहत मूल्यांकन के नियम दिए हैं -

(a) 1 से 9

(b) 10 से 18

(c) 19 से 26

(d) 27 से 35

1. Rules regarding valuation under GST are –

(a) 1 to 9

(b) 10 to 18

(c) 19 to 26

(d) 27 to 35

23.. मूल्यांकनन नियमो की आवश्यकता होती है जब -

(a) बीजक मूल्य स्पष्ट नहीं दिया हो

(b) माल का प्रतिफल मुद्रा में नहीं दिया गया हो

(c) एजेंट के माध्यम से माल की आपूर्ति की गई

(d) उपरोक्त सभी

2. Valuation rules required when-

(a) Invoice price is not clear

(b) Consideration is not shown in money

(c) Goods supplied through agent

(d) All of above

2. PROVISIONS REGARDING TAX INVOICE

1. कर बीजक जारी किया जाता है -

(a) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता

(b) करमुक्त माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा

(c) कंपोजिशन डीलर द्वारा

(d) प्रत्येक द्वारा

1. Tax invoice issued by –

(a) Registered supplier

(b) Supplier of exempted goods

(c) Composition dealer

(d) Each of above

2. कर बीजक ----- प्रतियों में तैयार किया जाता है

(a) 2 **(b) 3** (c) 4 (d) 5

2. Tax invoice shall be prepared is Copies-

(a) 2 **(b) 3** (c) 4 (d) 5

3. कम्पोजीशन विकल्प पूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाता है -

(a) कर बीजक

(b) पूर्ती बिल

(c) क्रेडिट नोट

(d) प्राप्ति वाउचर

3. Composition supplier issued-

(a) Tax Invoice

(b) Bill of supply

(c) Credit Note

(d) Receipt voucher

4. माल की पूर्ती का टैक्स इनवॉइस जारी करने की समय सीमा है-

(a) पूर्ती से पहले

(b) पूर्ती के समय

(c) उपरोक्त दोनों में से कोई भी

(d) भुगतान के समय

4. Time limit for issuing of tax invoice is

(a) Before supply

(b) At the time of supply

(c) Any of above two

(d) At the time of payment

5. सेवा की पूर्ती की दशा में कर बीजक जारी करने की समय सीमा-

(a) आपूर्ति से पहले

(b) आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर

(c) उपरोक्त दोनों में से कोई भी

(d) एडवांस प्राप्त होने पर

5. Time limit for issuing tax invoice regarding service-

(a) Before supply

(b) Within 30 days of supply

(c) Any of above two

(d) Advance received

6. आपूर्ति का बिल जारी किया जाता है -

(a) कम्पोजीशन डीलर द्वारा

(b) करमुक्त माल का पूर्तिकर्ता द्वारा

(c) अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा

(d) उपरोक्त (ए) या (बी) द्वारा

6. Bill of supply issued by-

(a) Composition dealer

(b) Supplier of exempted goods

(c) Unregistered person

(d) As above (a) or (b)

7. प्राप्त वाउचर जारी किया जाता है-

(a) भुगतान प्राप्त होने पर

(b) अग्रिम की वापसी पर

(c) माल वापसी पर

(d) उपरोक्त सभी

7. Receipt voucher is issued-

(a) Receiving of payment

(b) Advance payment received

(c) Goods returned

(d) All of above

8. प्रतिदाय वाउचर जारी किया जाता है-

(a) टैक्स के रिफंड पर

(b) अग्रिम की वापसी पर

(c) बिक्री वापसी पर

(d) क्रेडिट नोट जारी करने पर

8. Returned voucher is issued-

(a) Refund of tax

(b) Refund of advance

(c) Sales return

(d) Issuing of credit note

9. क्रेडिट नोट जारी किया जाता है-

(a) बीजक में माल का मूल्य अधिक लिख दिया हो

(b) कर अधिक चार्ज किया हो

(c) माल वापस आ गया हो

(d) उपरोक्त सभी

9. Credit note issued on-

- (a) Value over charged in invoice
- (b) Tax over charged
- (c) Goods supplied returned

(d) All of above

10. डिलीवरी चालान जारी किया जाता है-

- (a) माल की डिलीवरी/सुपुर्दगी देने पर
- (b) माल की सुपुर्दगी लेने पर
- (c) बीजक जारी किए बिना माल के परिवहन पर**
- (d) माल के निर्गमन पर

10. Delivery challan is issued on-

- (a) Delivery of goods
- (b) Delivery taken of goods

(c) Transportation without issue of invoice

- (d) Removal of goods

5. DEBIT CREDIT NOTE AND OTHER DOCUMENTS

1. क्रेडिट नोट जारी किया जाता है-

(a) पंजीकृत पूर्ति कर्ता द्वारा

- (b) कर मुक्त माल के पूर्तिकर्ता द्वारा
- (c) कम्पोजीशन डीलर द्वारा
- (d) प्रत्येक द्वारा

1. Credit note is issued by –

(a) Registered supplier

- (b) Supplier of exempted goods
- (c) Composition dealer
- (d) Each of above

2. सुपुर्दगी चालान प्रतियों में तैयार किया जाएगा-

- (a) 2 **(b) 3** (c) 4 (d) 5

2. Delivery Challan shall be prepared in copies –

- (a) 2 **(b) 3** (c) 4 (d) 5

3. कम्पोजीशन विकल्प पूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाता है-

- (a) कर बीजक

(b) पूर्ति बिल

- (c) क्रेडिट नोट

- (d) प्राप्ति वाउचर

3. A supplier opted for composition scheme issues –

- (a) Tax Invoice
- (b) Bill of supply**
- (c) Credit Note
- (d) Receipt voucher

4. पूर्ति बिल जारी किया जाता है-

- (a) कम्पोजीशन डीलर द्वारा
- (b) कर मुक्त माल के पूर्तिकर्ता द्वारा
- (c) अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा
- (d) उपर्युक्त (a) या (b) द्वारा**

4. Bill of supply is issued by –

- (a) Composition dealer
- (b) Supplier of exempted goods
- (c) Unregistered person
- (d) As above (a) or (b)**

5. प्राप्ति वाउचर जारी किया जाता है-

- (a) भुगतान प्राप्त होने पर
- (b) अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर**
- (c) माल वापसी पर
- (d) उपर्युक्त सभी

5. Receipt voucher is issued on –

- (a) Receiving of payment
- (b) Advance payment received**
- (c) Goods returned
- (d) All of above

6. प्रतिदाय वाउचर जारी किया जाता है-

- (a) कर की वापसी पर
- (b) अग्रिम की वापसी पर**
- (c) माल वापसी पर

(d) क्रेडिट नोट जारी करने पर

6. Return voucher is issued on –

- (a) Refund of tax
- (b) Refund of advance**
- (c) Sales return
- (d) Issuing of credit note

7. क्रेडिट नोट जारी किया जाता है:

- (a) बीजक में माल का मूल्य अधिक लिख दिया हो
- (b) कर अधिक चार्ज किया हो
- (c) माल वापस आ गया हो

(d) उपर्युक्त सभी

7. Credit note issued on -

- (a) Value over charged in invoice
- (b) Tax over charged
- (c) Goods supplied returned

(d) All of above

8. सुपुर्दगी चालान जारी किया जाता है-

- (a) माल की सुपुर्दगी देने पर
- (b) माल की सुपुर्दगी लेने पर

(c) बीजक जारी किये बिना माल के परिवहन पर

- (d) माल के निर्गमन पर

8. Delivery challan is issued on –

- (a) Delivery of goods
- (b) Delivery taken of goods

(c) Transportation without issue of invoice

- (d) Removal of goods

6. ACCOUNTS AND RECORDS

1. एक पंजीकृत डीलर को निम्न लेखे रखना होता है -

- (a) माल के निर्माण संबंधी
- (b) आवक-जावक आपूर्ति
- (c) स्टॉक

(d) उपरोक्त सभी

1. A registered dealer is required to maintain the following accounts-

- (a) Manufacturing expenses
- (b) Inward-outward supply
- (c) Stock

(d) All of above

2. लेखे रखने का स्थान होता है -

- (a) व्यापार का प्रमुख स्थान
- (b) व्यवसाय के अन्य स्थान
- (c) अन्य परिसर में लेखे

(d) उपरोक्त सभी

2. Place of keeping accounts-

- (a) Principal place of business
- (b) Other places of business
- (c) Other places

(d) All of above

3. लेखों करने की अवधि है -

- (a) 12 महीने
- (b) 36 महीने
- (c) 72 महीने**
- (d) 5 वर्ष

3. Period of retention of accounts-

- (a) 12 months
- (b) 36 months
- (c) 72 months**
- (d) 5 years

7. PAYMENT OF GST

1. जीएसटी जमा किया जाता है-

- (a) प्रति माह**
- (b) त्रैमासिक
- (c) वार्षिक रूप से
- (d) साप्ताहिक

1. GST is deposited-

- (a) Per month**
- (b) Quarterly
- (c) Annually
- (d) Weekly

2. जीएसटी भुगतान के लिए निर्धारित चालान है-

- (a) GSTR -1
- (b) GSTP-1
- (c) GSTN
- (d) GST PMT-06**

2. Prescribed for deposition of GST is-

- (a) GSTR-1
- (b) GSTP-1
- (c) GSTN

(d) GST PMT-06

3. नियत समय के भीतर जीएसटी के भुगतान नहीं करने पर ब्याज लगता है-

- (a) 1% मासिक
- (b) 18% वार्षिक**
- (c) 15% वार्षिक
- (d) 12% वार्षिक

3. Interest is payable in case of delayed payment of GST within due time-

- (a) 1% monthly

(b) 18% annual

(c) 15% annual

(d) 12% annual

4. जीएसटी की राशी जमा की जा सकती है -

(a) ई- भुगतान

(b) आरटीजीएस

(c) एनईएफटी

(d) उपरोक्त में से कोई भी

4. GST can be deposited –

(a) E- Payment

(b) RTGS

(c) NEFT

(d) Any of above

5. जीएसटी में स्रोत पर कर की कटौती की जाती है -

(a) नियोक्ता द्वारा

(b) सरकार द्वारा

(c) सरकारी विभाग द्वारा

(d) आपूर्तिकर्ता द्वारा

5. Under GST Tax deducted at source made by-

(a) Employer

(b) Government

(c) Government Department

(d) Supplier

6. सरकारी विभाग द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि

(a) माल का मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

(b) ठेका संविदा मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

(c) सेवाओं का मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

(d) उपरोक्त प्रत्येक दशा में

6. Tax deducted at source by Government department if

(a) Value of supply is more than Rs. 2.5 lakh

(b) Work contract value is more than Rs. 2.5 lakh

(c) Value of services is more than Rs. 2.5 lakh

(d) Each condition as above

7. जीएसटी में स्रोत पर कर कटौती की धारा है-

(a) 49

(b) 50

(c) 51

(d) 52

7. Section related to tax deduction at source in GST is-

- (a) 49
- (b) 50
- (c) 51**
- (d) 52

8. कर संग्रह के लिए उत्तरदायी है

- (a) प्रत्येक आपूर्तिकर्ता
- (b) ई-कॉमर्स ऑपरेटर**
- (c) इनपुट सेवा वितरक
- (d) सरकारी विभाग

8. Liable person to tax collection at source-

- (a) Each supplier
- (b) E-Commerce operator**
- (c) Input service distributor
- (d) Government department

9. जीएसटी में कर संग्रह से संबंधित धारा है-

- (a) 51
- (b) 52**
- (c) 53
- (d) 54

9. Section related to tax collection at source under GST is-

- (a) 51
- (b) 52**
- (c) 53
- (d) 54

8. REFUND IN GST

1. जीएसटी में रिफंड सम्बन्धी प्रावधान की धारा है-

- (a) 39
- (b) 44
- (c) 54
- (d) 59

1. Section regarding refund under GST is-

- (a) 39
- (b) 44
- (c) 54**
- (d) 59

2. रिफंड का दावा किया जाता है-

- (a) पूर्तिकर्ता
- (b) प्राप्तकर्ता

(c) सरकार

(d) उपभोक्ता

2. Refund is claimed by-

(a) Supplier

(b) Recipient

(c) Government

(d) Consumer

3. रिफंड से संबंधित फॉर्म है-

(a) REG-1

(b) GST RFD-1

(c) GST-1

(d) आवेदन

3. Form related to refund is-

(a) REG-1

(b) GST RFD-1

(c) GST-1

(d) Application

4. रिफंड स्वीकृत करने की समय सीमा है -

(a) 7 दिन

(b) 30 दिन

(c) 60 दिन

(d) दो महीने

4. Time limit for sanctioning refund-

(a) 7 days

(b) 30 days

(c) 60 days

(d) Two months

5. रिफंड की राशि जमा की जाती है -

(a) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही

(b) उपभोक्ता कल्याण कोष

(c) आपूर्तिकर्ता का बैंक खाता

(d) सरकार के पास

5. Amount of refund is credited to-

(a) Electronic credit ledger

(b) Consumer welfare fund

(c) Bank account of supplier

(d) Government

9. RETURNS UNDER GST

1. जीएसटी अधिनियम में विवरणी से सम्बन्धित धाराएँ हैं-

- (a) 5 से 16
- (b) 17 से 36
- (c) 37 से 48
- (d) 49 से 60

1. Relative Sections for Returns under GST Act -

- (a) 5 to 6
- (b) 17 to 36
- (c) 37 to 48
- (d) 49 to 60

2. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है-

(a) पंजीकृत व्यापारी

- (b) कम्पोजीशन डीलर
- (c) अपंजीकृत व्यापारी
- (d) उपर्युक्त सभी

2. Liable person for submission of monthly Return is -

(a) Registered dealer

- (b) Composition dealer
- (c) Unregistered dealer
- (d) All of above

3. जीएसटी के लिए विवरणी प्रस्तुत करने का निर्धारित प्रारूप है-

- (a) फार्म GSTR-1
- (b) फार्म GSTR-2
- (c) फार्म GSTR-3

(d) उपर्युक्त सभी

3. Prescribed form for Return under GST -

- (a) Form GSTR-1
- (b) Form GSTR-2
- (c) Form GSTR-3

(d) All of above

4. जीएसटी के लिए सामान्य रूप से पूर्ति विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है-

(a) मासिक (b) त्रैमासिक (c) वार्षिक (d) कभी भी

4. Normally Return of supply under GST is submitted -

(a) Monthly (b) Quarterly (c) Annually (d) Any time

5. कम्पोजीशन स्कीम के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करनी होती है-

(a) मासिक **(b) त्रैमासिक** (c) वार्षिक (d) कभी भी

5. Filing of Return required under composition scheme -

(a) Monthly **(b) Quarterly** (c) Annually (d) Any time

6. आवक प्रदाय का विवरणी फार्म है

(a) GSTR-1 **(b) GSTR-2** (c) GSTR-3 (d) GSTR-9

6. Prescribed Form for inward supply is-

(a) GSTR-1 **(b) GSTR-2** (c) GSTR-3 (d) GSTR-9

7. जावक प्रदाय का निर्धारित फार्म है

(a) GSTR-1 (b) GSTR-2 (c) GSTR-2-A (d) GSTR-5

7. Prescribed Form for outward supply -

(a) GSTR-1 (b) GSTR-2 (c) GSTR-2-A (d) GSTR-5

8. मासिक विवरणी के लिए निर्धारित फार्म है-

(a) GSTR-1 (b) GSTR-2 **(c) GSTR-3** (d) उपर्युक्त सभी

8. Prescribed Form for monthly Return is-

(a) GSTR-1 (b) GSTR-2 **(c) GSTR-3** (d) All of above

9. वार्षिक विवरणी का निर्धारित फार्म है-

(a) GSTR-6 **(b) GSTR-9** (c) GSTR-10 (d) GSTR-11

9. Prescribed Form for Annual Return –

(a) GSTR-6 **(b) GSTR-9** (c) GSTR-10 (d) GSTR-11

10. कम्पोजीशन विकल्प की दशा में विवरणी फार्म है-

(a) GSTR-5 (b) GSTR-7 (c) GSTR-9 **(d) GSTR-9A**

10. Prescribed Form for returns in case of composition option is:

(a) GSTR-5 (b) GSTR-7 (c) GSTR-9 **(d) GSTR-9A**

10. PROVISIONS, RULES AND FORMS RELATING TO RETURNS

1. रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम विवरणी प्रस्तुत की जाती है-

(a) आवक पूर्ति विवरण

(b) जावक पूर्ति विवरण

(c) मासिक विवरणी

(d) वार्षिक विवरणी

1. A registered person furnishes firstly –

(a) Inward supply return

(b) Outward supply return

(c) Monthly return

(d) Annual return

2. विवरणियों के प्रस्तुति के नियम हैं, -

(a) धारा 42 से 48

(b) धारा 49 से 58

(c) धारा 59 से 84

(d) धारा 85 से 97

2. Rules regarding furnishing of returns are in-

(a) Section 42 to 48

(b) Section 49 to 58

(c) Section 59 to 84

(d) Section 85 to 97

11. INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX

1. भारत में लागू किया गया है -

(a) एकल जीएसटी

(b) दोहरा जीएसटी

(c) वैट और सेवा कर

(d) नेशनल टैक्स

1. In India implemented-

(a) Single GST

(b) Dual GST

(c) VAT and Services Tax

(d) National Tax

2. भारत में जीएसटी के प्रकार हैं-

(a) सेंट्रल जीएसटी

(b) राज्य जी.एस.टी.

(c) एकीकृत जी.एस.टी.

(d) उपरोक्त सभी

2. Types of GST in India are-

(a) Central GST

(b) State GST

(c) Integrated GST

(d) All of above

3. एकीकृत GST राज्यों में सामान्य दर को बांटा जाता है-

(a) 2: 1 के अनुपात में

(b) बराबर-बराबर

(c) केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित अनुपात में

(d) सभी राज्यों में बराबर

3. Integrated GST is distributed amongst states-

(a) In the ratio of 2:1

(b) Equally

- (c) In the ratio of recommended by Central Government
(d) Equal among all states

4. भारत में IGST से संबंधित कानून है-

- (a) केंद्रीय जीएसटी अधिनियम
(b) राज्य जीएसटी अधिनियम
(c) एकीकृत जीएसटी अधिनियम
(d) उपरोक्त सभी

4. Law relating to IGST in India is-

- (a) Central GST Act
(b) State GST Act

(c) Integrated GST Act

- (d) All of above

5. अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर निम्नलिखित लागू होता है-

- (a) राज्य जी.एस.टी.
(b) सेंट्रल जीएसटी
(c) एकीकृत जी.एस.टी.
(d) राष्ट्रीय जी.एस.टी.

5. The following is applicable on Inter-State supply-

- (a) State GST
(b) Central GST

(c) Integrated GST

- (d) National GST

6. IGST के अंतर्गत कर मुक्त माल है-

- (a) अनाज और दालें
(b) आटा, मैदा, रवा, बेसन
(c) चावल
(d) उपरोक्त सभी

6. Tax free goods is under IGST-

- (a) Grains and pulses
(b) Flour, Maida, Rawa, Besan
(c) Rice

(d) All of Above

7. GST के अंतर्गत कर मुक्त है-

- (a) खादी यार्न
(b) रेडीमेड कपड़ा

(c) होजयरी

(d) कालीन

7. Tax free goods is under IGST-

(a) Khadi Yarn

(b) Readymade garment

(c) Hosiery

(d) Carpet

8. कर मुक्त माल है-

(a) चीनी

(b) गुड

(c) खांडसारी

(d) मिठाई

8. Tax free goods is-

(a) Sugar

(b) Gur

(c) Khandsari

(d) Mithai

9. किसानो को पूर्ती दशा में कर मुक्त माल नहीं है-

(a) कृषि उपकरण

(b) प्रमाणित बीज

(c) रासायनिक उर्वरक

(d) पशु आहार

9. Tax free goods is not in case of supply-

(a) Agricultural equipment

(b) Certified seeds

(c) Chemical fertilizers

(d) Cattle feed

10. विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली वास्तु करमुक्त नहीं है -

(a) पुस्तकें

(b) पेन

(c) स्लेट

(d) चॉक स्टिक

10. Tax free goods is not in case of sales to students-

(a) Books

(b) Pen

(c) Slate

(d) Chalk Stick

11.. जीएसटी में करमुक्त माल अधिसूचित करने की धारा-

- (a) 15
- (b) 11
- (c) 17
- (d) 8

11.. Section for notifying exempted exercise books goods under GST-

- (a) 15
- (b) 11**
- (c) 17
- (d) 8

12.. जीएसटी कर मुक्त वस्तुओं की लगभग संख्या है-

- (a) 175
- (b) 100
- (c) 150
- (d) 200

12.. Number of tax-free goods about under GST is-

- (a) 175
- (b) 100
- (c) 150**
- (d) 200

13 जीएसटी में कर-मुक्त वस्तुओं के लिए अनुसूची है-

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) शून्य दर माल

13. Schedule for tax-free goods in GST is-

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) Nil rate goods**

14. gst अधिनियम में करमुक्त वस्तुओं माल की अनुशंसा की जाती है -

- (a) केंद्र सरकार
- (b) जीएसटी परिषद
- (c) राज्य सरकार
- (d) इनमें से कोई भी

14. Exempted goods declared on recommendations of-

- (a) Central Government
- (b) GST Council**
- (c) State Government
- (d) Any of these

15. सकल अवर्त की गणना में करमुक्त माल -

- (a) शामिल किया जाता है
- (b) शामिल नहीं किया जाता है
- (c) शामिल करने के बाद घटाया जाता है
- (d) आपूर्ति की परिभाषा में नहीं आता है

15. In computation of aggregate turnover tax free goods-

(a) Included

- (b) Not included
- (c) Firstly, included thereafter deducted
- (d) Not covered under the definition of supply

16. भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं-

- (a) कर योग्य सेवा
- (b) करमुक्त सेवा
- (c) आंशिक करमुक्त सेवा
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

16. Services rendered to the Reserve Bank of India is-

(a) Taxable services

(b) Exempted services

- (c) Partly exempted services
- (d) None of the above.

17. संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को दी गयी व्यक्तिगत सेवाएँ हैं-

- (a) करयोग्य
- (b) करमुक्त
- (c) आंशिक रूप से करयोग्य
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. Services provided to United Nations employees for their personal purposes is-

(a) Liable to pay tax

(b) Not liable to pay tax

- (c) Partly liable to pay tax
- (d) None of the above

18. कर योग्य सेवाओं की सूचि में शामिल नहीं है

- (a) वकील
- (b) डॉक्टर
- (c) इंजीनियर
- (d) चार्टर्ड एकाउंटेंट

18. The following is not included in taxable services-

- (a) Lawyer
- (b) Doctor**
- (c) Engineer
- (d) Chartered Accountant

12. LEVY AND COLLECTION OF IGST

1. IGST के लिए कर की अधिकतम दर है-

- (a) 5%
- (b) 12%
- (c) 28%
- (d) 18%

1. Maximum rate is for IGST-

- (a) 5%
- (b) 12%
- (c) 28%**
- (d) 18%

2. जीएसटी की गणना होती है-

- (a) व्यवहार मूल्य पर
- (b) अंतर-राज्य आपूर्ति का कर योग्य मूल्य
- (c) इनपुट क्रेडिट में कटौती के बाद देय कर
- (d) नेट ड्यूटी देय

2. GST is calculated on-

- (a) Transaction Value
- (b) Taxable Value of inter-state supply**
- (c) Tax payable after deducting Input Credit
- (d) Net duty payable

3. स्वीकृत gst में कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं होता है -

- (a) अन्य राज्य को विक्रय
- (b) आयात
- (c) निर्यात शुल्क
- (d) राज्य में विक्रय**

3. Not included in taxable value for IGST-

- (a) Sales to other state
- (b) Import
- (c) Export charges

(d) Intra-state sales

4. व्यवहार मूल्य में से छूट प्राप्त होती है -

- (a) व्यापारिक बट्टा**
- (b) अग्रिम भुगतान के कारण विशेष कटौती

(c) गारंटी अवधि में विक्रय उपरांत सेवा शुल्क

(d) उपरोक्त सभी

4. Deduction allowed against transaction value-

(a) Trade Discount

(b) Special discount for advance payment

(c) In guarantee period after sales service charges.

(d) All of above

5. आईजीएसटी पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर है-

(a) 1%

(b) 2%

(c) शून्य

(d) 4%

5. Rate of Health and Education Cess is on IGST is-

(a) 1%

(b) 2%

(c) Zero

(d) 4%

13. PROVISION RELATING TO DETERMINATION OF PLACE UNDER IGST

1. अंतर-राज्यीय आपूर्ति है-

(a) एमपी से राजस्थान को आपूर्ति

(b) दिल्ली में खरीदा गया और दिल्ली में बेचा गया

(c) संघ क्षेत्र में पूर्ति

(d) प्रदेश में बिक्री

1. Inter-State supply is-

(a) Supply from MP to Rajasthan

(b) Purchased in Delhi and sold in Delhi

(c) Supply within union territory

(d) Supply within State

2. कब माल का प्रदाय अंतरराज्यीय पूर्ति माना जायेगा -

(a) माल एक दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना

(b) माल का आयात

(c) माल का निर्यात

(d) उपरोक्त सभी

2. When is a supply of goods to take place inter-state-

(a) Transfer of goods one to another state

(b) Import of goods

(c) Exports of goods

(d) All of above

3. जहां बिक्री को अंतर-राज्यीय आपूर्ति नहीं माना जाएगा

- (a) एक ही राज्य में माल का स्थानांतरण
- (b) एक ही संघ क्षेत्र में पूर्ति
- (c) सामान राज्य में प्रेषण पर माल भेजने पर

(d) उपरोक्त सभी

3. Where a sale will not be regarded as Inter-state supply

- (a) Transfer of goods within state
- (b) Supply of goods within same union territory
- (c) Goods on consignment in same state

(d) All of above

4. अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है -

(a) पूर्तिकर्ता

- (b) क्रेता व्यापारी
- (c) उपरोक्त दोनों
- (d) उपभोक्ता

4. Liable person to pay tax on inter-state supply

(a) Supplier

- (b) Purchases
- (c) Both Above
- (d) Consumer

5. एकीकृत जीएसटी में भुगतान किया जाएगा-

(a) आपूर्तिकर्ता राज्य

- (b) प्राप्तकर्ता के राज्य में
- (c) कहीं भी
- (d) दिल्ली में

5. Integrated GST shall be paid in the-

(a) State of supplier

- (b) State of Recipient
- (c) Anywhere
- (d) In Delhi

6. अंतरराज्यीय पूर्ति की अनिवार्य शर्त है-

- (a) माल की पूर्ति
- (b) विक्रय संविदा के तहत माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना
- (c) माल का सञ्चालन विक्रय के फलस्वरूप होना

(d) उपरोक्त सभी

6. Essential condition of Interstate supply is-

- (a) Supply of Goods
- (b) Movement of goods from one state to another state is occasioned under agreement of sale
- (c) Movement of goods is to complete the sale
- (d) All of above.**

INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (TRUE FALSE)

State True or False:

- Q13. IGST levied on goods imported in India is a part of GST.
x
भारत में आयात किये जाने वाले माल पर लगाया IGST, GST का भाग है।
- Q14. In the erstwhile Central Sales Tax system, the credit of CST was not available to the buyer.
v
पूर्व केंद्रीय बिक्री कर प्रणाली में, क्रेता को CST का क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।
- Q15. A service shall be qualified as export of service only if realisation of service is received in convertible foreign currency.
v
किसी सेवा को “सेवा का निर्यात” तभी माना जाता है जब सेवा की आपूर्ति के बदले में परिवर्तित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
- Q16. When any amount of integrated tax or central tax of state tax received by the government is returned, then it is called return.
v
जब सरकार द्वारा प्राप्त किये गये एकीकृत कर या केंद्रीय कर या केंद्रीय कर या राज्य कर में से कोई राशि की वापसी कर दी जाती है उसे कर की वापसी कहा जाता है।
- Q17. No refund of unutilized ITC shall be allowed in case where the goods exported out of India are subject to export duty.
v
उत्त मामलों में अप्रयुक्त ITC की कोई वापसी नहीं की जायेगी, जहाँ भारत से निर्यात किए गये सामान निर्यात शुल्क के अधीन है।
- Q18. Any person claiming refund of any tax and interest paid on such, if any other amount paid by him, may make an application before 3 years from the relevant date.
x
कोई भी व्यक्ति भुगतान किये गये कर या कर पर ब्याज, यदि कोई हो, या कोई अन्य राशि की वापसी लिए दावा करता है तो वह संबंधित तिथि से तीन साल तक कर सकता है।
- Q19. Antiprofitteering measure means that the consumers are getting the related goods on the right price or not.
v
मुनाफाखोरी निरोधक उपाय से आशय यह है कि उपभोक्ता को उचित दर पर आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो रही हैं या नहीं।
- Q20. According to avoidance of dual control, central and state govt. has agreed to take taxes on the basis of 50:50.
v
दोहरे नियंत्रण से बचाव के तहत केंद्र और राज्य सरकारों में समझ के आधार पर कर 50:50 के आधार पर किया जायेगा।
- Q21. This is also been agreed that those businessmen having annual turnover up to 2.5 crore are administration under state government.
x
यह भी तय किया गया है कि जिन व्यापारियों का वार्षिक कुल 2.5 करोड़ तक है, उनका प्रशासन राज्य सरकारें करेंगी।
- Q22. The proper officer may recover by deduction from any owed money.
x
किसी बकाया पैसे से कटौती द्वारा कर की वसूली की जा सकती है।

Q23. Sections 74 related to non payment / short payments etc. on account of fraud, willful misstatement or suppression of facts.

√

धारा 74 धोखाधड़ी / तथ्यों के स्वेच्छाचारी गलत व्याख्या या गोपन के आधार पर गैर भुगतान व कम भुगतान से संबंधित है।

Q24. Section 50 is provide interest @ 9%.

X

धारा 50 के अंतर्गत ब्याज की दर 9% है।

Q25. Section 73 related to non payment / short payment etc. on account of other than fraud, willful misstatement or suppression of facts.

√

धारा 73 धोखाधड़ी / तथ्यों के स्वेच्छाचारी गलत व्याख्या या गोपन के अलावा अन्य कारणों के आधार पर कर का गैर भुगतान व अल्प भुगतान आदि से संबंधित है।

Q26. Credit of eligible duties in respect of input held in stock in not allowed.

X

स्टॉक में रखे गये इनपुट के सम्बन्ध में पात्र शुल्कों का क्रेडिट अनुमत नहीं है।

Q27. The government may make rules for all or any of the matters which by the Act are required to be prescribed. √

सरकार उन सभी या किसी भी मामले के लिए नियम बना सकती है जो अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

Q28. Some of the provisions of CGST Act shall apply to IGST Act also.

√

CGST अधिनियम के कुछ प्रावधान IGST अधिनियम में भी लागू होते हैं।

Fill in the blanks :

Q29. Burden of proof normally refer to the to prove one's belief or act.

Obligation

वर्दन ऑफ प्रूफ आमतौर पर किसी के विष्वास या कार्य को साबित करने के..... को संदर्भित करता है।
दायित्व

Q30. GST law has subsumed

various existing laws

GST कानून ने को सम्मिलित कर लिया है।

कई मौजूदा कानून

Q31. Rule 164 may provide penalty not exceeding for committing breach of rule.

10,000

नियम 164 का उल्लंघन करने के लिएसे कम के जुर्माने का प्रावधान है।

Q.32. ITC under the existing laws have to be in to the new GST law.

Migrated

मौजूदा कानूनों के तहत को नये जीएसटी कानून में..... किया जाता है।

स्थानांतरित

Q.33. After implementation of GST, Central taxes ant state taxes arein GST.

Merged

GST लागू होने के बाद केन्द्रीय कर एवं राज्य करों को GST में..... कर दिया गया है।

समाहित

Q.34. Befor toGST , central and state was having their won..... department.

Independent

पहले केन्द्र और राज्यों के कर विभाग अपने आप में..... थे।

स्वतंत्र

Q.35. Section.....is related to non payment / short payment etc. on account of other than fraud, misstatement or suppression of facts.

73

धारा..... धोखाधड़ी / तथ्यों की स्वेच्छाचारी गलत व्याख्या या गोपन के अलावा अन्य कारणों के आधार पर कर का गैर भुगतान / अल्प भुगतान आदि से संबंधित है।

73

Q.36. Section deals with the case of frauds or intentional defaults.

74

धारा..... धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक के मामलों से संबंधित है।

74

Q.37. The notice would specify the amount of tax along with interest payable there on under section..... 50 नोटिस में धारा..... के तहत ब्याज के साथ कर की राशि निर्दिष्ट होगी। 50

14. PROVISIONS REGARDING JOB WORK

1. जॉब वर्कर को इनपुट भेजे जाते हैं-

(a) पूर्तिकर्ता द्वारा

(b) निर्माता द्वारा

(c) प्रधान द्वारा

(d) प्राप्तकर्ता द्वारा

1. Inputs are sent to job worker by-

(a) Supplier

(b) Producer

(c) Principal

(d) Recipient

2. जॉब वर्कर को माल भेजते समय जारी किया गया दस्तावेज-

(a) कर बीजक

(b) पूर्ती बिल

(c) डिलीवरी चालान

(d) वाउचर

2. Document issued in case of goods sent to job worker-

(a) Tax invoice

(b) Bill of supply

(c) Delivery challan

(d) Voucher

3. जॉब वर्क है -

(a) सेवा की पूर्ति

(b) माल की पूर्ति

(c) वस्तुओं और सेवाओं दोनों की पूर्ति

(d) इनमें से कोई नहीं

3. Job work is a-

(a) Supply of service

(b) Supply of goods

(c) Supply of goods and services

(d) None of these

4. जॉब वर्क पर भेजे गए इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है-

(a) जॉब वर्कर को

(b) प्रधान को

(c) प्राप्तकर्ता को

(d) उपरोक्त सभी को

4. Input tax credit a valuable in case of job work-

(a) Job worker

(b) Principal

(c) Recipient

(d) All of above

5. जॉब वर्क पर जीएसटी की प्रभावी दर-

(a) माल पर लागू दर

(b) 18%

(c) 12%

(d) कम्पोजीशन दर

5. Effective rate of GST in case of Job work-

(a) Rate applicable on goods

(b) 18%

(c) 12%

(d) Rate of Composition

15. TAX LIABILITY UNDER REVERSE CHARGE

1. रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर चुकाया जाता है -

(a) पूर्तिकर्ता द्वारा

(b) प्राप्तकर्ता द्वारा

(c) ग्राहक द्वारा

(d) नौकरी करने वाला द्वारा

1. Tax is paid by Under reverse charge-

(a) Supplier

(b) Recipient

(c) Customer

(d) Job worker

2. निम्नलिखित माल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित हैं-

(a) तम्बाकू के पत्ते

(b) तेंदूपत्ता है

(c) काजू

(d) उपरोक्त सभी

2. The following goods are notified under reverse charge-

(a) Tobacco leaves

(b) Tendu leaves

(c) Cashew nuts

(d) All of above

3. निम्नलिखित सेवा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आती है-

(a) माल परिवहन एजेंसी

(b) यात्री परिवहन सेवा

(c) बीमा एजेंट द्वारा सेवाएँ

(d) कंपनी संचालक सेवाएँ

3. The following service is not covered under reverse charge-

(a) Goods transport agency

(b) Passenger transport service

(c) Services by Insurance agent

(d) Services by company director

16. ASSESSMENT, SCRUTINY AND TAX AUDIT

1. जीएसटी अधिनियम में निर्धारण से संबंधित धाराएं है -

(a) 37 से 48

(b) 49 से 53

(c) 54 से 58

(d) 59 से 64

1. Relative sections for assessment procedure under GST Act-

(a) 37 to 48

(b) 49 to 53

(c) 54 to 58

(d) 59 to 64

2. GST के अंतर्गत होता है-

(a) स्व-कर निर्धारण

(b) सारांश का निर्धारण

(c) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण

(d) प्रकरण अनुसार उपरोक्त में से कोई भी

2. Assessment can be done under GST-

- (a) Self-assessment
- (b) Summary assessment
- (c) Best Judgement assessment

(d) Any of above as per case

3. स्वतः कर निर्धारण किया जाता है -

(a) पंजीकृत व्यक्ति

(b) अपंजीकृत व्यक्ति

(c) उचित अधिकारी

(d) आयुक्त

3. Self-assessment shall be done by-

(a) Registered person

(b) Unregistered person

(c) Proper officer

(d) Commissioner

4. अस्थायी कर निर्धारण की अवधि है-

(a) 30 दिन

(b) 60 दिन

(c) 90 दिन

(d) कोई निश्चित नहीं है

4. Time limit for provisional assessment is-

(a) 30 days

(b) 60 days

(c) 90 days

(d) Not certain

5. विशेष लेखा परीक्षा की जाती है -

(a) आयुक्त द्वारा

(b) अतिरिक्त आयुक्त द्वारा

(c) नामांकित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा

(d) सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा

5. Special Audit conducted by-

(a) Commissioner

(b) Additional Commissioner

(c) Nominated chartered accountant

(d) Government auditor

17. GST ADMINISTRATION: AUTHORITIES

1. जीएसटी सम्बन्धी कानूनों की संख्या है

(a) केन्द्रीय पदाधिकारी

(b) राज्य पदाधिकारी

(c) उपरोक्त अ एवं ब

(d) जीएसटी परिषद

1. GST authorities are classified as

(a) Central authorities

(b) State authorities

(c) Both a and b

(d) GST council

2. जीएसटी का सर्वोच्च पदाधिकारी है-

(a) केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त

(b) राज्य कर आयुक्त

(c) मुख्य आयुक्त

(d) उपर्युक्त सभी

2. The following is applicable on inter-State supply-

(a) Central principal chief

(b) State GST Commissioner

(c) Chief commissioner

(d) All of above.

3. जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है -

(a) प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्य आयुक्त

(b) केन्द्रीय वित्त मंत्री

(c) प्रधानमंत्री

(d) नीति आयोग का अध्यक्ष

3. Chairperson of GST council is

(a) Chief Commissioner of Indirect Taxes

(b) Union Finance Minister

(C) Prime Minister

(d) President of NITI Aayog.

4. जीएसटी अधिकारी के कार्य है-

(a) प्रशासनिक कार्य

(b) कर निर्धारण

(c) निरीक्षण, भर्ती एवं गिरफ्तारी

(d) उपर्युक्त सभी

4. The following are the functions of GST officer-

(a) Administrative functions

(b) Assessment

(c) Inspection, seizure and arrest

(d) All of above

5. जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं-

(a) राजस्व या वित्त केन्द्रीय राज्य मंत्री

(b) राज्यों के वित्त मंत्री

(c) राज्य सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति

(d) उपर्युक्त सभी

5. Members of the GST council are

(a) Union Minister of State incharge of Revenue or Finance

(b) Finance Ministers of State

(c) Nominated Government

(d) All of above

18. INSPECTION, SEIZURE DEMAND AND RECOVERY UNDER GST

1. जीएसटी अधिनियम में मांग से संबंधित धाराएं हैं -

(a) 73 से 78

(b) 17 से 36

(c) 37 से 48

(d) 49 से 60

1. Relative sections for demand GST Act-

(a) 73 to 78

(b) 17 to 36

(c) 37 to 48

(d) 49 to 60

2. कर की वसूली से संबंधित धाराएं हैं -

(a) 67 से 72

(b) 73 से 78

(c) 79 से 84

(d) 85 से 94

2. Relevant sections to recovery of tax-

(a) 67 to 72

(b) 73 to 78

(c) 79 to 84

(d) 85 to 94

3. जीएसटी अधिनियम में निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति की धारा है

(a) 67

(b) 68

(c) 69

(d) 70

3. Section related to inspection, search and seizure –

(a) 67 (b) 68 (c) 69 (d) 70

4. माल के निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के लिए अधिकृत अधिकारी है-

- (a) आयुक्त
(b) अतिरिक्त आयुक्त
(c) संयुक्त आयुक्त

(d) उपर्युक्त कोई भी

4. For inspection, search and seizure Authorised officer is –

- (a) Commissioner
(b) Additional Commissioner
(c) Joint Commissioner

(d) Any of above

5. गिरफ्तार करने की शक्ति से सम्बन्धित धारा है

- (a) 68 **(b) 69** (c) 70 (d) 71

5. Power to arrest is given under section –

- (a) 68 **(b) 69** (c) 70 (d) 71

6. परिवहन की स्थिति में मालों का निरीक्षण करने की शक्ति की धारा है

- (a) 68** (b) 69 (c) 70 (d) 71

Section related to power of inspection during movement of goods

- (a) 68** (b) 69 (c) 70 (d) 71

7. निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के लिए निम्न अधिकारी अधिकृत नहीं है-

- (a) आयुक्त
(b) संयुक्त आयुक्त से निचले स्तर का अधिकारी
(c) संयुक्त आयुक्त
(d) अतिरिक्त आयुक्त

7. The following officer is not authorised for inspection, search and seizure

- (a) Commissioner
(b) Below Joint Commissioner level

- (c) Joint Commissioner
(d) Additional Commissioner

19. OFFENCES AND PENALTIES

1. जीएसटी अधिनियम में अर्थदण्ड के प्रावधान की धाराएँ हैं-

- (a) 107 से 121 **(b) 122 से 128** (c) 132 से 138 (d) 139 से 142

1. Section related to penalties under GST –

- (a) 107 to 121 **(b) 122 to 128** (c) 132 to 138 (d) 139 to 142

2. जीएसटी अधिनियम में सजाओं के प्रावधान की धाराएँ हैं-

- (a) 122 से 128 (b) 129 से 131 **(c) 132 से 138** (d) 139 से 142

2. Sections related to punishment under GST -
(a) 122 to 128 (b) 129 to 131 **(c) 132 to 138** (d) 139 to 142

3. जीएसटी में किसी अपराध के लिए सामान्य अर्थदण्ड की राशि होगी-

(a) 10,000 .

(b) कर चोरी की राशि के बराबर

(c) उपर्युक्त दोनों में जो अधिक हो

(d) 50,000 रु.

3. Penalty amount shall be generally for any offence in GST –

(a) ₹ 10,000

(b) Equal to tax evasion

(c) Whichever is more above

(d) 50,000

4. जीएसटी में निम्नलिखित कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं-

(a) कर अपवंचन

(b) अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना

(c) कटौती किये गये कर की राशि जमा नहीं करना

(d) उपर्युक्त सभी

4. The following activities is covered under offence category in GST -

(a) Tax evasion

(b) Availing excess input tax

(c) Tax deducted not deposited

(d) All of above

20. APPEALS AND REVISION

1. अपील प्राधिकरण के यहाँ अपील करने की अवधि है-

(a) 7 दिन (b) 15 दिन (c) 30 दिन **(d) 90 दिन**

1. Appeal can be produced to Appellate within

(a) 7 days (b) 15 days (c) 30 days **(d) 90 days**

2. कमिश्नर (अपील) के यहाँ अपील निम्न आदेश के विरुद्ध की जा सकती है-

(a) कर निर्धारण आदेश

(b) अर्थादण्ड सम्बन्धी आदेश

(c) व्याज सम्बन्धी आदेश

(d) उपर्युक्त कोई भी

2. Appeal can be produced to commissioner (appeal) against the order-

(a) Assessment order

(b) Penalty order

(c) Interest order

(d) Any of above

3. अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की जा सकती है-

(a) करदाता द्वारा

(b) जीएसटी विभाग द्वारा

(c) उपर्युक्त दोनों के द्वारा

(d) सरकार द्वारा

3. Appeal may be submitted Appellate Tribunal by

(a) Assessee

(b) GST Department

(c) Both of the above

(d) Government

4. कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार किया जाता है-

(a) करदाता के आवेदन पर

(b) राजस्व को हानि पहुँचाने वाले आदेश पर

(c) उपर्युक्त दोनों स्थितियों में

(d) कर निर्धारण अधिकारी की प्रार्थना पर

4. Revision by commissioner

(a) On the application of assessee

(b) Order prejudicial to revenue

(c) Both the above situations

(d) Request by Assessing officer

1. REVIEW OF VARIOUS PROVISIONS OF GST

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer type Questions

1. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से आप क्या समझते हैं? जीएसटी की मुख्य विशेषता समझाइए। What do you understand by Goods and Services Tax (GST) Discuss its features

2. आपूर्ति या प्रदाय से क्या आशय है? आपूर्ति का क्षेत्र समझाइए। What do you mean by Supply Discuss scope of supply

3. माल एवं सेवाकर अधिनियम में किन पूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य पंजीयन की विधि समझाइए एवं बताइए कि पंजीयन कब रह किया जा सकता है। When the registration is compulsory for supplier under GST Act? Describe procedure of registration and circumstances of cancellation the registration

4. जीएसटी के अंतर्गत माल और सेवाओं के पूर्ति के स्थान निर्धारण सम्बन्धी प्राथ समझाइए। Discuss the provisions of GST relating to determination of place of goods and services supplied

5. माल एवं सेवा की दशा में पूर्ति के समय का निर्धारण कैसे होता है? How is determined the time of supply of Goods and Services?

6. इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्या आशय है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्तें बताइए। साधन सामग्री (Inputs) एवं पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलती है? What is input Tax Credit? Discuss the features of Input Tax credit. How allowed ITC credit in respect of Inputs and Capital Goods ?

7. जीएसटी हेतु करयोग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए व्यवहार मूल्य में कौन-कौन सी मदें जोड़ी जाती हैं और कौन सी मृदा पाई जाती हैं? Which items are included and excluded in transaction value for computation Taxable Value from GST point view ?
8. जीएसटी अधिनियम में सम्मिश्रण उद्ग्रहण (कम्पोजिशन लेवी) के प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions of GST Act regarding composition Levy.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short True Type Questions)

9. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। Explain the meaning of Goods and Services Tax with example:
10. निम्नलिखित शब्दों को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कीजिए Define the following Terms under GST Act
- माल (Goods)
 - सेवाएँ (Supply)
 - (Business) कारोबार या व्यवसाय का स्थान
 - संकलित या कुल आवर्त (Aggregate Turnover)
11. केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी क्या है? What are the Central GST and State GST?
12. एकीकृत जीएसटी को समझाइए। Discuss integrated GST
13. संयुक्त पूर्ति को उदाहरण सहित समझाइए। Explain composite supply with examples.
14. मिश्र पूर्ति को उदाहरण सहित समझाइए। Explain mixed supply with examples
15. करयोग्य घटना क्या है? What is taxable event?
16. पंजीयन के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची दीजिए। Give a list of documents should be enclosed with application for Registration.
17. कम्पोजिशन स्कीम लिए पात्र एवं अपात्र व्यक्ति बताइए। Mention the list of persons eligible to opt or not to opt composition scheme.
18. कम्पोजिशन की दशा में कर दायित्व की गणना की विधि बताइए। Show the method for calculating Tax liability in case of composition

2. PROVISIONS REGARDING TAX INVOICE

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी के अन्तर्गत कर बीजक जारी करने के प्रावधानों एवं नियमों का विवेचन कीजिए। कर बीजक में शामिल की जाने वाली जानकारियों का उल्लेख कीजिए। Discuss the provisions and Rules regarding issuance of Tax Invoice under GST. Mention the contents of Tax Invoice,
2. कर बीजक तैयार करने की विधि बताइए एवं इसका काल्पनिक प्रारूप दीजिए। Discuss the Procedure for preparing Tax Invoice and give an imaginary proforma.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. कर बीजक जारी करने की आवश्यकता एवं समय सीमा बताइए। Mention the requirement and time limit to issue Tax Invoice,

4. कर बीजक की विषय-सामग्री को दी जाने वाली प्रविष्टियाँ दीजिए। Give the contents or particulars of Tax Invoice.
5. जावक पूर्ति बिल क्या है? यह कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है ? What is Bill of outward supply? When and by whom it is issued?
6. कर बीजक जारी करने के समय पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on time of issuing of tax invoice.
7. कर बीजक जारी करने की रीति बताइए। Mention manner of issuing Tax Invoice.

3. PREPARATION OF TAX INVOICE PRACTICAL PROBLEMS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी के अंतर्गत जारी किये जाने वाले कर बीजक के विभिन्न अंगों या खण्डों की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। Mention the contents of various parts or components of tax invoice issue under GST.
2. जीएसटी के अंतर्गत एक निर्माता द्वारा जारी किये जाने वाले कर बीजक को काल्पनिक अंकों का प्रयोग करते हुए तैयार कीजिए। Prepare a tax invoice issued by a manufacturer under GST with imaginary data.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. कर बीजक के शीर्षक भाग में दी जाने वाली जानकारियों का उल्लेख कीजिए। Mention the information provided under heading part of tax invoice.
4. कर बीजक के मध्य भाग में दिए जाने वाले विवरणों को तालिका रूप में प्रस्तुत कीजिए। Show the particulars given in the middle parts of tax invoice in table form.
5. कर बीजक में दर्शायी जाने वाली जीएसटी की राशि से सम्बन्धित खण्ड को समझाइए। Describe the division regarding GST shown in the tax invoice.

4. PREPARATION OF TAX INVOICE REGARDING SERVICES PRACTICAL PROBLEMS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी लगाने के लिए करयोग्य सेवाओं के लिए बीजक कैसे तैयार किया जाता है ? How can prepared valued taxable services for charging GST ?
2. करयोग्य सेवाओं के लिए जारी बीजक में शामिल की जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए एवं प्रारूप दीजिए। Describe contents of tax invoice regarding services give a proper proforma for charging GST.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. जीएसटी के अंतर्गत करयोग्य सेवाओं के बीजक तैयार करने की विधि समझाइए। Discuss the procedure for preparing tax invoice for taxable value of services.
4. सेवाओं के करयोग्य मूल्य पर जीएसटी की प्रभावी दरें बताइए। Mention the effective rates of GST regarding services.
5. बीजक में सेवा की पूर्ति के सम्बन्ध में किस मूल्य पर जीएसटी चार्ज किया जाता है ? On which value of GST is charged in case supply of services in tax invoice ?

5. DEBIT – CREDIT NOTE AND OTHER DOCUMENTS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी के अन्तर्गत जमा पत्र - नामे पत्र जारी करने के प्रावधानों एवं नियमों का विवेचन कीजिए। पुनरीक्षित बीजक में शामिल की जाने वाली जानकारियों का उल्लेख कीजिए। Discuss the provisions and Rules regarding issuance of Credit note - Debit note under GST. Mention the contents of Revised Tax Invoice.
2. क्रेडिट नोट तैयार करने की विधि बताइए एवं इसका काल्पनिक प्रारूप दीजिए। Discuss the procedure for preparing Credit note and give on imaginary proforma.
3. क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट क्या है ? इनको जारी करने की स्थितियाँ एवं विषय-वस्तु का विवेचन कीजिए। What do you mean by Credit Note and Debit Note ? Discuss the situation and contents for issuance of such notes.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

4. जमा पत्र जारी करने की आवश्यकता एवं समय सीमा बताइए। Mention the requirement and time limit to issue Credit note.
5. पुनरीक्षित कर बीजक की विषय-सामग्री को दी जाने वाली प्रविष्टियाँ दीजिए। Give the contents or particulars of Tax Invoice.
6. पूर्ति बिल क्या है? यह कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है ? What is Bill of Supply ? When and by whom it is issued ?
7. डेबिट नोट पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on Debit Note.

6. ACCOUNTS AND RECORDS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले लेखों एवं अभिलेखों सम्बन्धी प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions relating to keep and maintain accounts and records by a registered person under GST.
2. माल के उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेखों का विवरण दीजिए। Give particulars about various types of accounts to keep by producers or sellers of goods.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. जीएसटी के अंतर्गत लेखों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। Mention the various types of accounts under GST.
4. जीएसटी में लेखे रखने के स्थान सम्बन्धी प्रावधान बताइए। Discuss the provisions regarding place of keeping accounts under GST.
5. ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले लेखों की सूची दीजिए। Give a list of accounts to be maintained by a contractor.

6. एजेंट द्वारा लेखों पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on accounts maintained by an agent.

7. लेखों एवं अभिलेखों के धारण की अवधि सम्बन्धी प्रावधान बताइए। Discuss the provisions in respect of period of retention of accounts.

8. गोदाम या भंडारगृह के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा कौन-कौन से लेखे एवं रिकॉर्ड सा जाते हैं। Which types of accounts and records to be maintained by the owner or operator of godown or warehouse and transporter.

7. PAYMENT OF GST

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी के भुगतान के प्रावधान, नियम एवं प्रक्रिया को समझाइए Discuss the Provisions, Rules and procedure for payment of GST.

2. जीएसटी भुगतान के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ? जीएसटी भुगतान की देय तिथि बताइए। Who is responsible to deposit GST payable ? Mention the due date for depositing GST.

3. स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों समझाइए। Explain the provisions regarding the deduction of Tax at Source.

4. किन परिस्थितियों में स्रोत पर कर की कटौती की जाती है ? जीएसटी में स्रोत पर कर की कटौती सम्बन्धी प्रावधान बताइए। In which circumstances the tax should be deducted at source ? Mention the provisions of GST regarding tax deduction at source.

5. जीएसटी अधिनियम में स्रोत पर संग्रह के प्रावधान क्या हैं ? What are the provisions relating to tax collection at source under GST Act ?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

6. जीएसटी जमा कराने की निर्धारित तिथियाँ कौन-कौन सी हैं ? What are the prescribed date for depositing GST ?

7. स्रोत पर कर की कटौती को परिभाषित कीजिए। Define deduction of tax at source.

8. ऐसे स्थानों के नाम बताइए, जिनके द्वारा स्रोत पर कर काटा जाता है ? Give the name of institutions which are liable to deduct tax?

9. निम्न दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह सम्बन्धी नियमों का वर्णन कीजिए State the rules regarding the deduction of tax at source or collection at source in the following cases –

(a) ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भुगतान Payment by E-commerce operator

(b) ठेकेदार को भुगतान Payment to Contractors

8. REFUNDS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)

1. जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफण्ड) सम्बन्धी प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions regarding Refund under GST Act.

2. रिफण्ड का दावा करने की विधि एवं भुगतान की प्रक्रिया बताइए। Discuss the procedure for claim and payment of Refund.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. रिफण्ड का दावा करने की विधि एवं भुगतान की प्रक्रिया बताइए। Describe the process for furnishing the application for refund.

4. रिफण्ड के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची दीजिए। Give a list of documentary evidences along with refund application.

5. रिफण्ड को स्वीकृत करने की समय सीमा बताइए। Mention the time limit for sanctioning of refund.

6. रिफण्ड पर ब्याज सम्बन्धी प्रावधान बताइए। Discuss the provision relating to interest on refund.

7. न्याय विरुद्ध संवर्द्धन का सिद्धान्त समझाइए। Explain the Doctrine of Unjust Enrichment.

9. RETURNS UNDER GST

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। Discuss the provisions regarding furnishing of returns under the Goods and services Act.

2. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत मासिक विवरणियों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Describe the provisions of GST regarding monthly Returns.

3. विवरणी से क्या आशय है ? जीएसटी से सम्बन्धित विवरणियों के प्रकार समझाइए। What is meant by 'Return' ? Discuss various types of Return under GST.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. जीएसटी के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी कौन-कौन व्यक्ति होते हैं ? Who is responsible to file return under GST ?

2. अवधि के आधार पर विवरणियों के प्रकार बताइए। Mention the types of Return according to time period.

3. जावक प्रदाय विवरणी पर टिप्पणी लिखिए। Write note on outward supply Return.

4. मासिक विवरणी में शामिल की जाने वाली जानकारियां बताइए। Mention the information included in monthly Return.

5. विवरणियों से सम्बन्धित विभिन्न फार्म की सूची दीजिए। Give a list of various Forms regarding Returns.

10. PROVISIONS, RULES AND FORMS RELATING TO RETURNS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जावक पूर्तियों के विवरणी प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान एवं नियम समझाइए। Discuss the provisions Rules regarding furnishing of details of outward supplies

2. आवक पूर्तियों सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान एवं नियम बताइए। Mention the provisions and Rules regarding furnishing of details of inward supplies.

3. मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान एवं नियम समझाइए। Discuss the provisions and Rules regarding furnishing of details of monthly returns.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

4. इनपुट कर क्रेडिट के दावे का मिलान के प्रावधान बताइए। Discuss the provisions regarding of matching of claim of input credit ?

5. अंतिम विवरण पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on Final Return.

6. वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति सम्बन्धी नियम बताइए। Mention the rules regarding Annual Return.

7. जीएसटी प्रेक्टिशनर पर टिप्पणी लिखिए। Write notes on GST practitioners.

11. INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Te Questions)

1. एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम का परिचय दीजिए एवं इसके मुख्य प्रावधानों का विवेचन कीजिए। Give an introduction of Intergrated Goods and Services Tax (IGST) Act. Discuss its main provisions

2. माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों का विवेचन कीजिए। Discuss the provisions relating to determination of Inter-State supply of Goods and Services.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम क्यों लागू किया गया? Why Integrated Goods and Services Tax Act is enforced ?

4. माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कब मानी जाएगी? When the supply of goods or services shall be deemed as Inter State supply

5. माल के आयात-निर्यात की दशा में लागू प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। Mention the provisions regarding import-export of goods.

6. टिप्पणियाँ लिखिए (a) अंतर्राज्यीय पूर्ति (b) राज्य के भीतर प्रति Write notes on - (a) Inter-State supply (b) Intra-State supply.

7. अंतर्राज्यीय पूर्ति की दशा में माल के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझाइए। Discuss the process regarding valuation of goods in case of Inter-State supply.

12. PROVISIONS RELATED TO DETERMINE OF PLACE OF SUPPLY UNDER IGST

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. माल का प्रदाय कब 'अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य' के दौरान हुआ कहा जाता है ? विवेचना कीजिए। When a supply of goods said to take place in the course of Inter State Trade or Commerce ? Discuss.

2. आप अन्तर्राज्यीय पूर्ति का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? उदाहरण देकर समझाइए। How would you determine the Inter-State Supply ? Explain with examples.

3. माल या सेवाओं की पूर्ति कब राज्य के भीतर मानी जाएगी? When a supply of goods and services shall be Intra-State supply ?

4. जीएसटी के अंतर्गत माल और सेवाओं के पूर्ति के स्थान निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions of GST relating to determination of place of goods and services supplied.

5. सेवाओं की पूर्ति के स्थान निर्धारण सम्बन्धी विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। Mention special provisions relating to determine place of services provided.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

6. माल का प्रदाय कब राज्य के बाहर हुआ माना जाता है ? विवेचना कीजिए। When a supply of goods is said to take place outside a State ? Discuss.

7. माल का क्रय-विक्रय कब आयात या निर्यात के दौरान किया हुआ माना जाता है ? विवेचना कीजिए। When a supply of goods is said to take place in the course of import or export Discuss.

8. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें (i) अंतर्राज्यीय विक्रय, (ii) राज्य के भीतर पूर्ति । Write short notes on - (i) Inter-State supply, (ii) Supply with in state.

13. TRANSFER OF INPUT TAX CREDIT

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतरण के प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions regarding transfer of input tax credit under Integrated GST Act.

2. एकीकृत जीएसटी अधिनियम में कर के अभिभाजन और निधियों के व्यवस्थापन के प्रावधान बताइए। Mention the provisions regarding apportionment of tax and settlement of funds under IGST.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. राज्य के भीतर प्राप्ति एवं राज्य के बाहर पूर्व की दशा में इनपुट क्रेडिट का समायोजन कैसे किया जाएगा। How can make adjustment of input tax credit in case inward with in state and outward outside the state.

4. राज्य के बाहर से पूर्ति और राज्य में पूर्ति की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रम बताइए। Discuss the serial of input tax credit in case of inward supply from outside state and outward supply with in state.

14. PROVISIONS REGARDING JOB WORK

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जॉब वर्क से क्या आशय है ? जीएसटी अधिनियम में जॉब वर्क सम्बन्धी प्रावधान समझाइए। What is meant by Job work ? Discuss the provisions of GST Act regarding Job work.

2. जॉब वर्कर को इनपुट एवं पूँजी माल भेजने एवं वापस प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions relating to supply of inputs and capital goods to Job worker and return back them.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. जॉब वर्क की दशा में पक्षकार बताइए। Mention parties in case of Job work.

4. जॉब वर्क में कर दायित्व की विवेचना कीजिए। Discuss the tax liability in case of Job work.

5. जॉब वर्कर से वापस माल प्राप्त करने की अवधि क्या है ? What is the period for taking back goods supplies to Job worker ?

6. क्या जॉब वर्क पर भेजे गये माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है? Whether the input tax credit is available regarding goods sent for Job work?

15. TAX LIABILITY UNDER REVERSE CHARGE

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. विपरीत प्रभार (रिवर्स चार्ज) क्या है ? जीएसटी अधिनियम में रिवर्स चार्ज सम्बन्धी प्रावधान समझाइए। What do you mean by Reverse Charge ? Discuss the provisions of GST Ad regarding Reverse charge.

2. जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज के लिए अधिसूचित माल एवं सेवाओं की सूची दीजिए। Give a list of notified goods and services under GST regarding Reverse Charge.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझाइए। Explain the Reverse Charge mechanism

4. पंजीकृत व्यक्तियों से क्रय के सम्बन्ध में रिवर्स चार्ज का प्रावधान समझाइए। Discuss the provision of Reverse Charge regarding purchasing from unregistered dealers.

5. रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित मालों की सूची दीजिए। Give a list of goods notified for Reverse Charge purpose.

6. रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची दीजिए। Give a list of services notified for Reverse Charge purpose.

16. ASSESSMENT, SCRUTINY, AND TAX AUDIT

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति के कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Describe the provisions of GST Act regarding the assessment of a registered person.

2. 'अस्थायी कर निर्धारण' से क्या आशय है ? इस प्रकार का कर निर्धारण किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? What is meant by 'Provisional Assessment' ? Under what circumstances this type of assessment can be done?

3. जीएसटी के अंतर्गत लेखा परीक्षा के प्रावधान समझाइए। Discuss the provisions regarding audit under GST.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

4. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के प्रावधान बताइए। Mention the provisions regarding Best Judgment Assessment.
5. स्व कर निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। Write note on Self Assessment.
6. सारांश निर्धारण के प्रावधान समझाइए। Explain the provisions of summary assessment.
7. विवरणियों की संवीक्षा (स्कूटनी) के प्रावधान एवं नियम बताइए। Mention the provisions regarding scrutiny of Returns.
8. विशेष लेखा परीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on special audit.

17. GST ADMINISTRATION: AUTHORITIES, APPOINTMENT AND POWERS

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर के सम्बन्ध में पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं शक्तियों के प्रावधान बताइए। जीएसटी अधिकारियों के कार्यों एवं अधिकारों का उल्लेख कीजिए। Discuss the provision relating to appointment and power of outward for goods and services tax ? Mention the functions and Rights of GST officers.
2. जीएसटी परिषद के गठन एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। Describe the constitution of GST council and discuss its functions.
3. जीएसटी के अन्तर्गत प्रशासकीय पदाधिकारियों की सूची दीजिए एवं इनकी शक्तियाँ एवं कार्य समझाइए। Give a list of administrative authorities under GST and discuss their powers and functions.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

4. जीएसटी प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on GST administration.
5. जीएसटी परिषद का गठन किस प्रकार किया गया है? How is constituted GST Council ?
6. जीएसटी सम्बन्धी विभिन्न पदाधिकारियों की सूची दीजिए। Give a list of various GST authorities.
7. जीएसटी काउंसिल की निर्णय प्रक्रिया समझाइए। Discuss the decision process of GST Council.
8. जीएसटी अधिकारी के प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। Mention the administrative functions of GST officer.
9. जीएसटी प्रशासन में दोहरे नियंत्रण से बचाव की व्यवस्था पर लेख लिखिए। Write an article on Avoidance of Dual Control in GST administration.

18. INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर अधिनियम में निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी के प्रावधानों का विवेचन कीजिए। Discuss the provisions relating to inspection, search and seizure and arrest under GST.
2. अभिग्रहित माल (कब्जे में लिये गये माल) के संबंध में प्रक्रिया समझाइए। Describe the procedure relating to seized goods.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. आवागमन में माल के निरीक्षण के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। Mention the provisions regarding inspection of goods in movement.
4. जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तार करने के शक्ति का प्रावधान क्या है ? What is the provision regarding power to arrest under GST.

19. OFFENCES AND PENALTIES

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माल एवं सेवाकर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Discuss the various provisions Goods and Services Tax Act regarding penalties.
2. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत करदाता को किन अपराधों के लिए सजा दी जा सकती है ? Discuss the provisions of the GST tax Act regarding prosecution in various conditions?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

3. माल एवं सेवाकर अधिनियम में उल्लेखित अपराधों की सूची दीजिए। Mention the offences mentioned in GST Act.
4. अपराधों के लिए सामान्य से कितना अर्थदण्ड लगाया जा सकता है How much general penalty may be imposed for a offence ?
5. कर अपवंचन की दशा में सजा की अवधि बताइए। Mention the period of imprisonment in case of tax evasion.

20. APPEALS AND REVISION

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. अपील प्राधिकरण के यहाँ अपील करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। Describe the procedure for filing an appeal to the Appellate authority
2. अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील योग्य मामले कौन-कौन से हैं ? अपील की कार्यविधि समझाइये। Discuss the appellate order to Appellate and appeal procedure
3. अपीलेट ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) में अपील की कार्यविधि समझाइये। Discuss the procedure for filing an appeal to the Appellate Tribunal

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

टिप्पणी लिखिये Write Notes:

- (a) उच्च न्यायालय में अपील (Appeal to High Court)
- (b) सर्वोच्च न्यायालय में अपील (Appeal to Supreme Court)
